

कार्यशालाएं या संयुक्त 1 दिवसीय कार्यशाला (अनुरोध पर)

राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा प्रबंधन संस्थान वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सरकारी संगठन है जो बौद्धिक संपदा अधिकारों (PR's) यानी पेटेंट(एकस्व), डिजाइन, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेत, एवं कॉपीराइट आदि संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम संचालित करता है।

हाल ही में, आर.जी.एन.आई.आई.पी.एम को सहभागिता में प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएं आयोजित करने हेतु विभिन्न संगठनों से कई अनुरोध पत्र प्राप्त हुए हैं इसलिए, आर.जी.एन.आई.आई.पी.एम ने आर.जी.एन.आई.आई.पी.एम में एवं अनुरोध आधार पर आर.जी.एन.आई.आई.पी.एम के बाहर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव दिया है ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम और अवधि	कार्यक्रमकी तिथि	कार्यक्रम के लिए शुल्क आर.जी.एन.आई.आई.पी.एम में इन-हाउस)	कार्यक्रम के लिए शुल्क (आर.जी.एन.आई.आई.पी.एम के बाहर) लेकिन नागपुरशहर केअंदर	कार्यक्रम के लिए शुल्क (नागपुर शहर के बाहर)
आई.पी.आरव पेटेंट, एवं पेटेंट दाखिल करना (आधा दिन)	निवेदानुसार	5000 रु (50 प्रतिभागियों तक की फीस) उसके बाद प्रति प्रतिभागी 100 रु.) (लेखन पैड, कलम, चाय,) प्रमाण पत्रसहित)	5000 रु (भागीदारी की कोई भी संख्या और प्रत्येक को प्रमाण पत्र, प्रतिभागियोंका उपस्थिति पत्रक प्रस्तुत करनाहोगा)	—
आई.पी.आरव पेटेंट, एवं पेटेंट दाखिल करने की प्रक्रिया, फॉर्म, फीस आदिविषय पर एक दिवसीय कार्यशाला	निवेदानुसार	25000 रु 25 प्रतिभागियों तक की फीस इसके बाद प्रति प्रतिभागी 1000 रु (फोल्डर ,लेखनपैड, पेन, प्रमाणपत्र, प्रशिक्षण सामग्री, चाय, दोपहर का भोजन)	25000 रु (भागीदारी की कोई भी संख्या, प्रतिभागियों व संस्थान को प्रमाण पत्र दिया जाएगा)	100000 रु (किसी भी संख्या में भागीदारी)
एक / दो / तीन / पांच दिन / एक से चार सप्ताहका प्रशिक्षणकार्यक्रम	निवेदानुसार	फीस प्रति दिन के हिसाब से, (न्यूनतम 25 प्रतिभागीआवश्यक))	—	—
लगभग एक घंटे के सत्र की कार्यशालाओं के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा (केवल नागपुर के लिए)				

आर.जी.एन.आई.आई.पी.एम के बाहर सहभागिता कार्यशाला (ज्वाइंट वर्कशॉप) के लिए नियम एवं शर्तें :

संयुक्त कार्यक्रमों के लिए मेजबान संगठन के लिए वितरण: -

- मेजबान संगठन के निदेशक / प्राचार्य / प्रमुख उपयुक्त तिथि के साथ आर.जी.एन.आई.आई.पी.एम को अपने लेटरहेड पर अनुरोध पत्र दे सकते हैं।
- यदि कार्यक्रम का स्थान आर.जी.एन.आई.आई.पी.एम के बाहर होगा, तो प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों के सभी खर्चों की लागत जैसे फ़ोल्डर, चाय, दोपहर का भोजन, आदि, मेजबान संगठन द्वारा वहन किया जाएगा।
- मेजबान संगठन के वक्ताओं का दोपहर का भोजन / रात का खाना, हवाई किराया / ट्रेन और आवास आदि का खर्च उनके पात्रता के आधार के अनुसार वहन करना होगा।
- मेजबान संगठन पीपीटी प्रस्तुतियों के लिए प्रोजेक्टर, कंप्यूटर / लैपटॉप आदि सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा।

संयुक्त कार्यक्रमों के लिए आर.जी.एन.आई.आई.पी.एम के अनुबंध

- कार्यक्रम की तारीख आर.जी.एन.आई.आई.पी.एम द्वारा तय की जाएगी।
- एक या दो वक्ता आर.जी.एन.आई.आई.पी.एम / आई.पी.ओ / अतिथि वक्ता होंगे।
- यदि कार्यक्रम स्थान नागपुर है, तो आर.जी.एन.आई.आई.पी.एम केवल भुगतान किए गए कार्यक्रमों (Paid Programme) के लिए वक्ताओं के लिए स्थानीय परिवहन को वहन करेगा।
- कार्यक्रम का पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम सामग्री आर.जी.एन.आई.आई.पी.एम द्वारा तैयार किया जाएगा।
- आर.जी.एन.आई.आई.पी.एम और मेजबान संगठन प्रतिभागियों को एक दिवसीय कार्यशाला के लिए संयुक्त प्रमाण पत्र प्रदान करेगा।
- संयुक्त प्रमाणपत्र आर.जी.एन.आई.आई.पी.एम द्वारा मानक प्रारूप में एक दिन की कार्यशाला के लिए जारी किया जाएगा जिसमें आर.जी.एन.आई.आई.पी.एम व अन्य संगठन के नाम और हस्ताक्षर होंगे।

आर.जी.एन.आई.आई.पी.एम बिना किसी कारण के संगठनों के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकांश सुरक्षित रखता है।

उपरोक्त कार्यक्रमों के लिए अनुरोध कैसे करें: - अनुरोधपत्र संभावित 2 या 3 तिथियों और प्रतिभागियों की संख्या निदेशक / प्रधानाचार्य / प्रमुख के लेटरहेड पर उल्लेखित कर स्कैन कर ईमेल के माध्यम से rgniipm.ipo@nic.in, pborkar.ipo@nic.in भेजें

एवं डाक द्वारा

या कार्यालय प्रमुख, आर.जी.एन.आई.आई.पी.एम, हिसलोप कॉलेज रोड, सिविल लाइंस, नागपुर,
महाराष्ट्र - 440001 पर भेजें

संपर्क करें: -

श्री पाटिल (9922453057)

श्री तुरंकर (9422809065)

श्री जायसवाल (9422812261)

दूरभाष . 0712-2540920

श्री पी.पी.बोरकर - 0712-2984330 / 9224425777

आर.जी.एन.आई.आई.पी.एम कार्यालय को फ़ीस का भुगतान:-

आर.जी.एन.आई.आई.पी.एम कार्यालय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुल्क का भुगतान BHIM ऐप / कैश
/ चेक / डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाएगा।

• मल्टीसिटी चेक / डिमांड ड्राफ्ट “Patent Information System, Nagpur” केपक्ष में
तैयार किया जाना है।

• BHIM ऐप के माध्यम से भुगतान के लिए कृपया RGNIIPM@Centralbank के VPA
को चुनें, आवश्यक शुल्क का भुगतान करें और रसीद प्राप्त करने हेतु कैश काउंटर पर 12
अंकों का RRN no. प्रदान करें।